



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1946 (श0)
(सं0 पटना 11) पटना, शुक्रवार, 3 जनवरी 2025

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर 2024

सं० 01/स्था०-राज०-229/2022-2185—वित्त विभाग, बिहार, पटना की संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-04.12.2024 को हुए स्क्रीनिंग समिति की बैठक में स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख संवर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वेतनमान 9300-34800, पे बैंड-3, ग्रेड पे-5400 में द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) के लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ की स्वीकृति की तिथि
1	स्व० उमेश सिंह, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, सम्प्रति दिनांक-17.03.2019 को मृत।	17.03.2019
2	श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, तत्कालीन ईख पदाधिकारी सम्प्रति संयुक्त ईखायुक्त।	16.03.2016
3	श्री कुमार अविनाश चन्द्र, तत्कालीन ईख पदाधिकारी सम्प्रति दिनांक-05.11.2015 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त।	10.10.2015

2. द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद पदधारक की पदीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3. इस योजना के अधीन यह वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत लाभ होगा। अतः सम्बर्ग में कनीय पदाधिकारियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय पदाधिकारियों को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन/वेतन संरक्षण देय नहीं होगा।

4. भविष्य में सम्बद्ध पदाधिकारी/कर्मियों के सम्बर्ग से संबंधित वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय लिये जाते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन का लाभ तदनुसार संशोधित होगा।

5. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 में (i) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका-12 में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारण किया गया जायेगा।

6. उपर्युक्त पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि का पार्थक्य पाये जाने अथवा वित्त विभाग/सक्षम प्राधिकार अथवा महालेखाकार, बिहार, पटना के द्वारा इस वित्तीय उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जायेगी या मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा इस संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश नियमानुसार अवक्रमित/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार,
अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 11-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>